Ref: SEC/SE/2024-25 Date: May 29, 2024



To, Corporate Relation Department BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400001

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400051

BSE Scrip Code: 500096

NSE Scrip Symbol: DABUR

Sub: Publication of notice pertaining to transfer of equity shares to IEPF

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to enclose copies each of the Financial Express (English Daily) and Jansatta (Hindi Daily) both dated 29.05.2024 in which notice intimating the Shareholders about proposed transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) of the Central Government, have been published.

Submitted for your kind information and records.

Thanking you,

You<mark>rs fait</mark>hfully For **Dabur India Limited**

(A K Jain) EVP (Finance) and Company Secretary

Encl: as above

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM **FINANCIAL EXPRESS**

17

(₹ In Crore, except as stated)

WEDNESDAY, MAY 29, 2024

CIN - 124230DL1975PLC007908 Regd. Office: 8/3, Asaf All Road, New Delhi - 110 002 Tel. No 011-23223488, Fax No 011-23222051 Website - www.dabur.com; -email: investors@dabur.com
NOTICE TO SHAREHOLDERS
Transfer of Equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund Notice is hereby given to the members pursuant to the provisions of Section 124(6) and other
applicable providens, if any, of the Companies Act, 2013 read with the threater Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund, Pateg, 2016 ('the Reflex') as notified from time to time by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') that all equity shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for (7) seven consecutive years or more since the payment of Final Dividend for Financial Year 2016-17, are liable to be transferred by the Company to Investre Education and Protection Fund ('HEPT') as per the Relies.
The Company has sent individual notices to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to ECPF. The details of such shareholders has also been made available on Company website Le. www.dabur.com.
Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEFF, may belse most that the Company would be issuing new share certificates in lieu of the original share certificates hold by them for the purpose of conversion into demas, form and share certificates which are registered in their name shall stand submatching cancelled and be deemed non-negotiable. If case of abareholders holding shares in demat form, the transfer of respective Deposite by any Composite Action.
The concerned shareholders are requested to claim the unpaid/ unclaimed dividend amountis on or before 31th August, 2024. In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholder by 13th August, 2024 the Company shall, with a view to complying with the requirements set use in the nucles, constrained use and transfer the Starss Io IR- Company's verbite should be regarded as and shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of new share certificates for the express of Transfer of shares to Dema accounts of the shall be upon the Company in respect of the unclaimed dividend amount and equity shares so transferred.
For claiming unpaid/unclaimed dividend, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, Mr. Raj Kumar Kale, AVP – Corp. Registry at M/S KFin Technol- orgen Linited Linit: Davin Index Linited Science Towner Technol - Det M. dz 122. Einaperial District

ogies Limited Unit: Dabur India Limited, Šelenium Tower B, Piot No 31-32; Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad- 500032, Tel: 040 6716 2222 email id: einward.if.36kfintech.com 28th May, 2024 New Delhi

For Dabur India Limi Ashok Kumar J ice) & Co

TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED B torrent Registered Office: Torrent House, Off A Ahmedabad - 380 009, Gujarat, India Phone: + 91 79 26599000 Fax: + 91 79 26582100 (CIN: L24230GJ1972PLC002126) Website: www.torrentpharma.com mail Id: investorservices@torrentpharma.com NOTICE This NOTICE is being published pursuant to the previsions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") nead with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audi, Transfer and Refund) Rules; 2016; "Churles') as an anded from time to time with respect to transfer de equity shares of the Company to the Deman Account of Investor Education and Protection Fund ("IEF") Authority. The statist startes correspond to those shareholders with been and church and education and period flast stores consectively ears or more. The Company has already sent a specific communication to person unais seven consecutive years of more. The Company has already sent a specific communication to the occorrect distenced area their address registered with the Company, inter alia, providing the details of the shares being transferred to IEPF. Further, the names of the concerned shareholders, their Folio No or DP ID – Client ID are available on the website of the Company, website phases. The concerned shareholders are requested to claim the unclaimed dividend due to them by making an application immediately along with the necessary documents mentioned in the letter and send it to KFin Technologies Limited., ("KFintech"). Registrar and Transfer Agents of the Company at the address stated below. KFIN Technologies Limited Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nyderabad, Rangareddy, Telangana India - 500 032 Tel: 040 - 67162222; Email: einward.ris@ktinlech.com; Website: www.ktinlech.com

The concerned shareholders are also requested to immediately communicate to the Company with the copy of the Order in case of any injunctions / restraints orders, etc. obtained from any Court / Statutory authority with respect to transfer of shares or payment of dividend, etc.

Analysis of memory of several or performance or motivation, encoded and an encoded and encoded and an encoded and enc

The concerned shareholders may note that, upon such transfer, they can claim the said shares along with dividend(s) from ICPF, for which details are available on the website of the Company <u>www.tonentpharma.com</u> and also on the website of the Ministry of Corporate Aflairs at <u>http://jept.gov.in</u>.

For lurther information, concerned shareholders may contact KFintech or the Secretarial Department of the Company at the above mentioned addresses.

FOR TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED CHINTAN M. TRIVEDI COMPANY SECRETARY

Place: Ahmedabad Date: 28th May, 2024

Ŝr	Particulars		Quarter ended	(Rs. in 000 Year ended			
No		31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Un-Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	
1	Total Income from Operations	1269.00	1132.00	920.00	3,784.00	3,163.00	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	989.00	586.00	605.00	2.174.00	(10,373.00	
3	Not Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	989.00	586.00	605.00	2,174.00	(10,373,00	
ŧ	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	739.00	418.00	445.00	1,605.00	(7,778.00	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	739.00	418.00	445.00	1,605.00	(7,778.00	
8	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each)	44,955.00	44,955.00	44,955.00	44,955.00	44,955.00	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet as at 31st March				40,819,00	39,214.00	
В	Earnings Per Share (of Rs. 10'- each) (for continuing and discontinued operations): Revie:	0.16	0.09	0.10	0.36	-1.73	
	Diuled:	0.16	0.09	0.10	0.36	-1.73	

	ACI INFOCOM DUL 172200MH 1982 109, Dimple Arcade Thakur Complex, Ka Email: complance@acireally.co.in Extract of Audited Financial Results for the 4th quar	PLC17547 ndivali East, Web: www.a	6 Mumbai 400 cirealty.co.in		(F	ls, in Lacs)			VENKATESHWARA INDUS CIN No: L65909 1, LU SHUN SARANI, TC ROOM NO. 2A, STATEMENT OF AUDITED FINA AND YEAR ENDE	WB1981PL DIMANSI KOLKATA CIAL RES	.C033333 ON, 2ND FI 700 073 ULTS FOR	LOOR, THE QUA	
Sr.		Quarter ended				Year Ended				QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
No.	Particulars		31.12.2023 (Unaudited)		31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)		SL No.	PARTICULARS		31-Mar-23	31-Mar-24	
-		1, 1		, ,	1 1		1	- 1		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited
1	Revenue From Operation	26,82	8,73	14.15	93.34	52.56			Revenue				
2	Net Profit / Loss before Tax	19,99	2,00	5,41	18,23	13,79			Total Income Expenses	190.16	1,288.95	928,96	3,191.03
3	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	14,21	0,82	1,72	8,86	10,12			Total expenses	190,30	1.226.45	883.18	3.114.81
4	Total Comprehensive Income for the period							3	Profit before Exceptional Items and Tax (1 - 2)	(0.14)	62.51	45.78	76.22
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and								Exceptional Items				· ·
	Other Comprehensive Income (after tax)]	14.21	0.82	1.72	8.86	10.12		5	Profit Before Tax (3 - 4)	(0,14)	62.51	45.78	76,22
5	Equity Share Capital	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104,91		67	Tax Expense Profit for the year (5-6)	(4.95) 4.72	10.89 51.62	7.08	14.46 61.76
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the								Other Comprehensive Income (net of tax)	4,72	01,02	30,10	01,10
	Audited Balance Sheet of the previous year		· ·	-	585.07	576,21		9	Total Comprehensive Income for the year	4,72	51,62	38.70	61.76
7	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each)								Paid-up equity share capital				
	(for continuing and discontinued operations) -								(Face Value of the Share Rs. 10+ each) Earnings per share (of Rs. 10+ each) :	5,02,40,000	5,02,40,000	5,02,40,000	5,02,40,000
	1. Basic:	0.013	0.001	0.002	0,008	0.009		11	Earnings per share (of Hs, 10- each) : (a) Basic	0,009	0,103	0,077	0,123
8	2. Diluted:	0.013	0.001	0.002	0.008	0.009			(b) D luted	0,009	0,103	0,077	0,123
No1 1. 2. 3. 4. 5.	est The Statement of Intrancial result has been prepared in accordance with section 133 of the Companies Act 2013, rest with the repower heles to policies to the owint regletable. The above statiment of Intrancial ensuits has been reviewed by the A molecular plant or 251M key 2024. The company speciates minity one segment, accordingly there are in Previous protof types have have been avec to accordingly there are no interviewed by the Francial Results of the Company at the Comp any at the Company at the Company at the Company at the Comp	ssued thereu udit Commit o separate re y, to corresp	nder and the i see and appro sportable seg ond with those or at the we	recognised a wed by the I ment as per se of the cur	ccounting pr Board of Din Ind AS-108 rent period E (www.bse	actices and actors at its - Operating		Reg Plac	above is an extract of the detailed format of Quar gulation 33 of the SEBI Listing and Other Disclos	.re Requireme		s, 2015. JAL PROMOT NIKHIL CHA Manag	ION CO, LTI Sdi

Place : Mumbai Date: 28th May 2024

CINDIA GLYCOLS LIMITED

Regd. Office: A-1, I dustrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244 713, Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand) Phones: +91 5947 269000/269500, Fax: +91 5947 275315/269535 liter@inidiagi/ocl.com, Website: www.inidiagi/cods.com • Cite: L24111UR1983PLC00909

Director DIN: 03545081

Audited Financial Results for the Quarter & Year ended March 31, 2024

SI.	Particulars			STANDALON	E		CONSOLIDATED							
No.		Quarter Ended			Year	Ended		Quarter Ende	Year	Ended				
		31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)			
31	Total income from operations	2,041.22	2,123.74	1,619.74	7,944.50	6,668.45	2,043.73	2,123.49	1,620.12	7,947.27	6,665.53			
2	Profit before Interest, depreciation and Tax (EBDITA)	109.79	107.71	100.93	423.48	325.11	109.23	106.81	100.48	428.09	319.42			
3	Net profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	51.13	50.05	45.90	202.05	140.27	50.56	49.16	44.33	206.65	125.50			
4	Net profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or extraordinary items)	51.13	50.05	45.90	202.05	122.70	55.60	53.89	45.64	223.31	165.00			
5	Net profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	37.74	37.79	40.10	151.73	98.74	42.21	41.63	39.84	172.99	141.04			
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	37.82	37.83	40.41	151.92	99.08	42.07	42.14	40.58	172.80	141.44			
7	Equity Share Capital	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96			
8	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet				1,685.34	1,656.65				2,020.06	1,870.46			
9	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not Annualised) Razio & Diluted (In ₹)	12.19	12.21	12.95	49.01	31.89	13.63	13.45	12.87	55.87	45.55			

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchanges Websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.indiaglycols.com). 2. The Doard of directors have recommended a dividend @ \$0: per share of face value of \$10: each subject to the approval of the members of the Company at Its ensuing Annual. 2. The Doard of directors t General Meeting.

for INDIA GLYCOLS LIMITED

U.S. BHARTIA Chairman and Managing Director DIN: 00063091

Place : Noida Date : 28th May, 2024

Waisl

WAISL LIMITED CIN: U72200DL2009PLC429177

Registered Office: 3rd Floor, Unit no. 310 (East Wing) Wordmark-1, Asset Area no. 11, Hospitality District, Delhi Aerocity, Near Indira Gandhi International Airport, New Delhi-110037; Ph.: + 91-80-45114500, Email: compliance@waisl.in, Website: www. vaisl.in, Website: www.waisl.in

Extract of Audited Financial Results (Standlone & Consolidated) for the

_		T		(Rs. in lakhs except earning per share) Consolidated							
e			Juarter Ended	Standalone arter Ended		Year Ended		Quarter Ended			Ended
S. No.	Desile the second	Audited	Unaudited	Audited	Audited		Audited	Unaudited Audited		Aud	
	Particulars	March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023	March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023
1	Total income From Operations	13949.69	13177.69	15775.34	51431.52	39114.95	13949,69	13177.69	15775.34	51431.52	39114.95
2	Net Profit for the period (before Tax and exceptional items)	4068.24	4473.52	7506.71	16974.48	15541.52	4035.88	4461.36	7506.71	16929.96	15541.52
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional items)	4068.24	4473.52	7506.71	16974.48	15541.52	4035.88	4461.36	7506.71	16929.96	15541.52
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional items)	2845.35	2490.83	5672.64	12554.56	11602.19	2812.99	2478.67	5672.64	12510.04	11602.19
5	Total Comprehensive income for the period [comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	2838.08	2490.83	5676.46	12547.29	11606.01	2805.72	2478.67	5676.46	12502.77	11606.01
6	Paid up Equity Share Capital (face value Rs. 10/- each)	547.91	547.91	500.00	547.91	500.00	547.91	547.91	500.00	547.91	500.00
7	Other Equity	2838.08	27368.48	5433.62	30206.56	16754.68	2801.86	27356.32	5433.62	30158.18	16754.68
8	Net Worth	3385.99	27916.39	5933.62	30754.47	17254.68	3349.77	27904.23	5933.62	30706.09	17254.68
9	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	69523.99	69507.22	44217.44	69523.99	44217.44	70188.49	70170.14	44217.44	70188.49	44217.44
10	Debt Equity Ratio	2.49	2.49	2.64	2.30	2.64	2.51	2.49	2.64	2.33	2.64
11	Earning Per Share (of Rs. 10 each)										
	a) Basic	51.93	45.46	113.45	229.14	232.04	51.34	45.24	113.45	228.32	232.04
	b) Diluted	51.93	45.46	113.45	229.14	232.04	51.34	45.24	113.45	228.32	232.04
12	Debt Service Coverage Ratio	5.11	1.86	1.04	3.50	1.46	5.06	1.85	1.04	3.49	1.46
13	Interest Service Coverage Ratio	5.11	5.14	7.74	5.66	6.80	5.06	5.12	7.74	5.64	6.80

In the machine control provide in the second sec 2

Information has been provided.
In the Selfs (LODR) Regulations, 2015 and have carried out an Audit of the above results in terms of Regulation 52 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and have based an Audit Report with an unmodified opinion.
In the Substration consolidated distanced regulations at 31 March 2024 and Standard at 31 March 2024 in the Set (LODR) Regulations, 2015 and have been disclosed along the Set of an autimatic and analysis of the set of th

n made to the the Stock Example For & on behalf of Board of Directors WAISL Limited Sd/

SURENDAR KUMAR SOO (Director) DIN: 01091404 lace: New Delhi ate : May 27, 2024

financialexp.epapr.in . New Delhi 0

Date: 27th May. 2024 . On behalf of Board For CREMICA AGRO FOODS LIMITED

| | | |
 | | |

 | | • | तता |
 | | 2024 |
 |) |
--	---	---
--
---	---	--
--	---	--
Se o annar A		क्षेत्रीय कार्यालयः ।, जेल <u>चुंगी, मेरठ</u>
 | <u>डिमां</u> ड | <u>गोटिस</u> |

 | | CIN - 124230DL
Regd. Office: 8 | JR
1975PL | ND
C007908
 | AL | IMI | ſED
 | |
| सर
एतद्दवारा एक नोटिस दिया जाता है कि नि | फेसी अधिनियम 2002 की धार
गम्नलिखित उथारकर्ताओं/गारंट | रों ने हमारे डारा उन | नके अनुरोध पर
 | उन्हें दी गई ऋ | न सुविधाओं के |

 | Dabu | Regd. Office: 8
Tel. No 011-2
Website - www | /3, Asaf
3253488
/ dabur | Ali Road,
Fax No.
 | New Dell
011-232 | ni - 110 002
22051
prs@dabuu | com
 | |
| मूलधन और व्याज के मुगतान में चूक की
पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम 200
किया गया था। हालॉकि, या तो नोटिस बिन |)2 की धारा 13 (2) के तहत ने
11 डिलीवर हुए वापस आ जाते | टिस उधारकर्ताओं/ | गारंटरां को उनग
 | हे अंतिम उपलब | ध पते पर जारी |

 | Transford | NOTICE T
of Equity shares of the C | 'O SH | AREH
 | OLDE | RS |
 | |
| सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया
क | | |
 | एनपीए | की विषि |

 | Notice is her
applicable p
Protection F | eby given to the membe
rovisions, if any, of the C
und Authority (Accountin | rs pursuai
ompanies
g, Audit, T | nt to the prov
Act, 2013 rea
ransfer and F
 | visions of S
ad with the
Refund) Rule | ection 124(6)
Investor Educ
25, 2016 ("the | and other
tation and
Rules") as
 | |
| त्रहणी / गारन्टर के न
ग <u>शाखाः जुर्</u> जा | बंधक आवासी | त्री गयी सम्पत्ति
य मकान (भूमि एवं | भवन), स्थित मव
 | बका
जन 29.0 | रस की तिथि
या राशि
)3.2024 |

 | notified from
respect of wi
since the pay
Company to | reby given to the membe
rovisions, if any, of the C
und Authority (Accountin)
n time to time by the Min
hich dividend has not bee
ment of Final Dividend fo
Investor Education and P | istry of Co
in paid or
ir Financia
rotection f | rporate Affai
claimed for (
Vear 2016-1
Fund ("JEPF")
 | irs ("MCA") 1
7) seven coi
7, are liable
as per the F | that all equity
nsecutive yea
to be transfer
tules. | rs or more
red by the
 | |
| प्रशी: मेसर्स बालाजी वर्तन मण्डार, प्रोपराइटर
गर्ग पुत्र श्री राम अवलार गोयल, प्रताः 1116
उत्सान खान, खुर्जा। 2. श्री संजय कुमार | , सुभाष रोड, बुर्ज खुर्जा, जिला-
गर्ग पुत्र थी राम मीटर, सम्पत्ति | ौहल्ला- कुर्ज उस्मान
कुलंदशहर, माप थे
। स्वामी श्री संजय कु | त्रिफल 84.00
मार गर्ग एवं श्रीभ
 | वर्ग रू0 5,
गती <u> </u> |)3.2024
24,408.00
माज एवं |

 | The Company
liable to be to
Company we | ty has sent individual not
ransferred to IEPF. The de
obsite i.e. www.dabur.com | tices to all
stails of suc | the concerr
shareholde
 | red shareho
ers has also | lders whose :
been made av | shares are
vailable on
 | |
| अवतार गोवल, पत्ताः 1116, सुभाष रौड, ष्
खुजी। गारल्टरः धीमती ओमवती देवी पत्नी
गर्ग, मकान नंध 2. बड़ी होली, खुजी, जिला- | ंश्री राम अवतार मकान, दक्षिण | । सीमाएँ:- उत्तरः हिं
: अशोक कुमार श
दिनेश सिंह सैनी का | र्गका मकान, !
 | থা এক | य खर्चे |

 | Shareholden
IEPF, may pl
original shar
subsequent | I holding shares in physic
ease note that the Comp
re certificates held by th
transfer to demat account | any would
em for th
ts opened | nd whose sh
I be issuing r
e purpose o
by JEPF Auth
 | ares are lia
new share c
f conversion
nority. Upon | ble to be tran
ertificates in
into demat
such issue, ti | isferred to
lieu of the
form and
he original
 | |
| शाखाः मुव्यप्रकरनगर
प्रणीः श्री मनोज कुमार पुत्र श्री हरीश चन | बंधक आवासी
द, पता 1: 420, नं0 127, ब्राग | य मकान (भूमि एवं
1 अलमासपुर, परगना | भवन) स्थित ख
तहसील एवं जि
 | ता- 12.0 | 2.2023
01.2024 |

 | share certific
deemed non
shares to the
respective D | s holding shares in physi
lease note that the Comp
re certificates held by th
transfer to demat accoun
rates which are registered
inegotiable. In case of sh
e demat accounts of IEPF
epositories by way of Corp | in their n
Iareholder
Authority
porate Act | ame shall sta
s holding sh
shall be effe
on.
 | and automa
ares in dem
ected by the | tically cancell
at form, the i
Company th | led and be
transfer of
trough the
 | |
| आनंद पुरी, गली नं0 2, निकट राष्
मुजपफरनगर-251001, पता 2: 127, अ
बेत्र, धर्मपाल टील के सामने बोआन, मुजपन | अलमासपुर बाहरी स्वामी श्री मन
करनगर। मारन्टरः उत्तरः मीरा वे | माप सेवफल 59.22
ोज कुमार पुत्र श्री ह
वी की सम्पत्ति, दक्षि | रीश चन्द। सीमा
णः अन्य व्यक्ति
 | एँ- + ठ
का अपन | 72,819.00
पाज एवं
य खर्चे |

 | The concern
on or before
the concerne
with the rec | ed shareholders are requi
13th August, 2024. In cas
ad shareholder by 13th A
uirements set out in th | ested to ci
e the Com
ugust, 207 | laim the unp
pany does no
4 the Compa
tematerialize
 | aid/ unclain
ot receive an
any shall, w | ned dividend
ny communica
ith a view to
fer the share | amount(s)
ation from
complying
s to JEPE
 | |
| श्री महेश कुनार, प्रताः 127, अलगास,
धर्मपाल दील के सामने दोआन, मुजाफारनम
म्म उपरोक्त उघारकर्ताओं/गारंटरों से आहवा- | गर। चौड़ा सरसा। | तत्पपाल का मकान,
काशन की तारीख से |
 | हाट | |

 | Shareholden
Company's v
of issue of ne
IEPF Authori | ed shareholders are requ-
13th August, 2024. In cas
ed shareholder by 13th A
uirements set out in th
s are requested to note
vebsite should be regarde
ew share certificates for t
ty pursuant to the amend
n the Company in respec | that the
d as and s
he purpos
ded rules. | updated list
hall be deem
e of transfer
Please note t
 | of shareho
of shares to
hat upon tr | Iders upload
equate notice
Demat accou
ansfer to EPF | ed on the
in respect
unts of the
no claim
 | |
| (र्ण रूप से निवंडन करें, ऐसा न करने पर हम
दुरक्षा हित अथिनियम 2002 का प्रवर्तन | वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण | और पुनर्निर्माण की ध | गरा 13 (4) के त
 | हत शक्तियों का ! | प्रयोग करेंगे और |

 | | | |
 | | |
 | |
| বিনাক—28.05.2024 | स्थान– मेरठ | | कृत अधिकारी,
 | | |

 | kegistrarano
ogies Limite
Nanakramgu
einward.ris@ | unpaid/unclaimed divide
d Share Transfer Agents, M
d Unit: Dabur India Limit
Ida, Serilingampally Mar
ekfintech.com. | r. Raj Kum
ted, Selen
idal, Hyde | ar Kate, AVP-
ium Tower E
erabad- 5000
 | -Corp. Regi
3, Plot No 3
)32, Tel: 04 | 1-32, Financi
0 6716 2222 | al District,
email id:
 | |
| | L FINANCE BANK
ाहण सूचना (अचल संप | | डी7, सेक्टर
 | ोय तल, जीएम
⊢3, गोएडा (उ | रीरी बिल्डिंग
.प्र.)–201301 |

 | 28th May, 20
New Delhi | 24 | | E
 | | For Dabur Ind
Ashok K
) & Company | umar Jain
 | |
| जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपजीवन स्मॉल
तथा प्रतिभति दिन प्रवर्तन अधिनियम २००२ के | फाइनेंस बेंक लि. के प्राधिकृत अं
1 अनमंत्र और प्रतिभति हिल (प्रवर्त | धेकारी के रूप में दित
न) नियमावली 2002 र | तीय परिसम्पत्तियं
हे नियम 3 के सा
 | िके प्रतिभूतिकरण
थ पवित धारा १३
में जरणकर्ता(ओ) | ा एव पुनर्गिर्माम
(12) के अंतर्गत
/ गाएटवर्शी) को |

 | BFC | एसबीए | |
 | | |
 | |
| प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगतर्गत, यहां नीथे जी
संबंधित गांग सूचना में अंकित राशि का
करणकर्ता/सह-करणकर्ता/बंधकेकर्ता निधारि
सह-करणकर्ता/संबंधकेकर्ता, सह-क्रपणकर्ता जी
तरिभूति डिंग प्रवर्तन नियमावली 2002 के निग | वित्त (तांवचा पर ऋगवता) गास
त बकाया राशि का प्रतिभुगतान
रि जनसाम्रारण को सूचित किया | से 60 दिवसों के
करने में विकल हो
जाता है कि उस्पोहस्ता | अवर प्रतिमुगत
चुके हैं, अलएव
सरकर्ता ने यहां इ
 | ल करने को र
एसद्धारा ऋणव
एसमें गिम्ना विवर्श | ग्रेस्टर(स) पर्म
त्रहा गया था।
त्र्ता/बंधककती,
पेत संपत्ति का, | रोड, ग्राम च

 | कला, अंधेरी (ई) | . 103, 1 ला तल, सी एंड
), मुम्बई–400059, टेलीफोन: | +912267 |
 | | |
 | |
| प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समस अंकित हि
जरणकर्ता / वधककर्ता, सह—जरणकर्ता / वधकक
अधिनियम की धारा 13 की लग—धारा (8) के | तेथियाँ पर, सांकेतिक अभिग्रहण व
जनां और सङ्ख्याकर्ता का ध्या
पाद्यधानां की ओर आमंत्रित किय | ९९ लिया है।
नाकमंण प्रतिभूत परिर
1 जाता है। | पत्तियों के मोक
 | नार्थ उपलब्ध सम | त्य के संदर्भ में |

 | | 67190MH 2008 PTC178 | र्त्रजनिक | सूचना
 | | |
 | ļ |
| आधानयम को धारा 13 का उप-धारा (8) क
जरणकर्ता / बंधककर्ता, सह—जरणकर्ता / बंधकव
है कि संपत्ति का लेन-धेन न करें और संप
इन पर निम्नलिखित प्रत्येक खाता के समझ | त्त्तां और सह — जाणकर्ता को विशेष
लि का कोई व किसी भी प्रकार - | रूप में तथा जनसाध
ल लेन-चेन, यहां इर | रण को एलदहारा
में निम्नाकित वय
ॉल फाइनेंस बेंक
 | सामान्वतय साक
गया राशि(यों) की
लि. के प्रभाराजी | तन किया जाता
एक राशि और
न होगा। | हारा नीलामी य
रहे हैं। नीलामी

 | त्री जाएगी। नीलामी क
को हमारी सूचनाएँ । | है कि गिरवी स्वर्णाभूषण को नीचे
ही जाने चाली रचनांभूषण हमारे ऐरं
ठन ज्रहनधारकों को विधिवत रूप रं | से दिभिन्न ग्रा | उकों की प्रसनस्वात
 | 11ओं के है जो 1 | प्रमारी देवताओं का | । भुगतान करने में विष
 | 'n |
| ऋणवर्ता/सह-ऋणवर्ता/
बंधककर्तां का नाम एवं पता
1) आरिफ पुत्र छोटे खान, निवासी रोत्तवर, फर्ड | अवल संप
का विवर | तित ः
ण त | मांज सूचना की f
या अधिखहण की
 | तेबि
तिथि | मांग सूचना के
अनुसार राशि | जयपुर शाखा
AP00430265

 | का पता : एमसीए
, AP00430270 | क्रस्पचाताओं से संबंधित है।
फरमी फत्रइनांस लिमिटेड, झॉप | | · ·
 | | |
 | |
| गली के पास, शहीद आइट, अलीगढ़,
पला=157, कर्बला रोठ, दूल्हे शाह वाली गली,
अलीगल, राणि=002011, 2) अंधार, प्रली : | यूपी—202001, नं. 5/60—एच
रोरावर, कोइल,
आफिक विकासी | िनिगम् स्वना
=10 के
तथ्या अंश, जो मोह
मीटर, राजस्व ग्राम | मे तिथिः २२,०६,२७२
ल्ला रोरायर, माप
 | 4
60 दर्गगज | रू
3.78,018 / —
विमाक
15.12,2023 | विस्तृत विवरणो

 | ं के लिये कृपवा ए
1 सूचना के नीलामी | सबीएफसी फाइनॉस लिमिटेड के
1 की जाने वाली खाताओं की | संख्या में पी | वर्तन करने/नील
 | ामी को स्थरिंग | । निरस्त करने व | ध्र ऑप्रकार है।)
 | |
| रोसवर, शहीद ब्राइट वाली गली के पास,
अलीगढ, यूपी–202001, यहां भी– करवाला '
वाली गली रोसवर, कोइल अलीगढ, वपी– | साहिद ब्राइट,
रोड, दूल्हे साह
२०२००१ इसके जिम्मानुसार परि | गाटर, राजस्य प्राम
की खसरा मं. 126
शीमित है : सीमायें
न और आरिफ का
रिफ और रोठ। संप | की भूमि का ए
गर्म- करन क
 | क हिस्सा जो
बाबी का घर | के अनुसार | HIN

 | | हिंदुजा हा
^{क्षतर क्रक्स}
रस, क्रक्स | उरि | ाँग प
३, क्रिक्षेय कर,
 | गईन
जन्म | रिंस दि
भारेड भन्म-अ | ्रेमिटेड
 | |
| अलावा यहां – मकान नंबर 1116, कयूम नग
देहसीगेट, तहसील कोइल, जिला अलीगव,
ऋण खाता संख्या 226922029000022 के अ | ्पूर्ण=202001. खान अर्थात् अ | ष में से नं, 1 से सं | बंगित है। | | | HOUSING | COLORED PETER WEEK | and a service and a service and the service an | 000000000000000000000000000000000000000 | -A | | more more | with firm areas | ~ |
| 1) मैसर्स माहिन मेटल अपने मालिक आरिम के
8. साहगज, तेली पाजा शाइजहामल, कोइल, रू
उत्तर प्रदेश=202001: 2) मोहम्मद आरिम
दियाजुरीन निवासी गक्षी ने 8. साहगंज, तेले
सूमेपार क्सी मरिजय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश | माध्यम रो. ओ/ए पाली मंगरः ।
पूर्वेचार यली मस्जिव, अलीगढ़, म
आसिम पुत्र रिहासुदीन / व | 14.51 वर्ग माग
तर क्षेत्रफल
ले आवासीय मूख्ल | के लमस्त भाग
 | तथा अंग जो | रु
10.42,206/-
विनाक | जयकि अमोहस्ट
का प्राधिकृत अ
निग्नलिखित क
जल्लेखित राशि

 | ाक्षरी ने वितीय परिसं
धेकारी होने तथा प्रति
जंदारों (तदोपरान्त क
प्रत्येक खाते के आगे | त्वार वारवाएव वार्तव कार्यवा कार्य
कार्य
वार्तियों के प्रतिनृतिकरण एवं पुनर्नि
मूति हित (प्रवर्तन) निक्षमत्वा
वर्षित ई उक्त सुरुवन की तिथि से
1 मे उरस्पल हो गये है, इसलिए एव
का जीमीनेयम की बाता 13(4), उन
ते सामने अविता के अनुसार सिवा है
के जनस्प्रकारण के प्रतिष्ठ प्र | र्नाम तथा प्रति
३ (2002 का न
से 'कर्जदार'
६० दिनों के अं | । भूति हित अभिनि
i, 3) के नियम के
' कहा गया है) कं
दर भगतान करने
 | ायस के प्रवर्तन व
साथ पठित धार
ो निम्नांकित दिन
को कहा गया ध | हे अधीन हिंदुखा ह
1 13(12) के उन्हीन
नांकों को मांग नोटि
11 | छत्तिंग फाइनिंस किनिन्ं
। प्रदत शकितयों के अंत
टेस जारी किया था जि
 | 本で天 |
| नरगासी बेगम पत्नी रिहासुधेन उर्फ रियाजुद्दीन है | | गता संख्या : 49 और
मि का एक हिस्सा,
विक्री परगना और तह | जील-कोचल अ
 | लीगढ में जिल्ला | 16.02.2024
के अनुसार | कर्जवार जक्त प
इसमे गीचे वर्गि
सम्पति का कब

 | ाशि का मुगतान करने
त संपत्ति का कब्जा, र
त नीचे प्रत्येक खाते व | मे असफल हो मये हैं, इसलिए एत
प्रका अभिनियम की भारत 13(4), उब
हे सामने अंकिरा के अनुसार सिया है | ाद्द्वारा कर्जव
रत गियमो के
। | ार और गारंटर तन
नियम 8 के साध 1
 | था आम जनता व
परित के अधीन | ने सुचित किया ज
उन्हें प्रदत्त शयितय | ाता है कि अपोहस्तास?
में के इस्तेमाल के अन्त
 | 1 |
| तेली पाता शाहजहामल, कोइल, सूबेदार दली :
— 202001; इसके अलावाः 286, शाहगज, कोइ
नगीना पत्नी मोडम्मद आसिम उर्फ घ्वआसिम नि
तेली पात्र्य शाहजहामल, कोइल, सूवेदार क | नेवासी गली नंबर ८, शाहगज, 👎 | था निम्नानुसार परि
सनपुरवाले का घर,
गम का प्लॉट न
गॅट संपत्ति नरगिस व | सामित छ ः स
पश्चिम— रास्ता,
इक्षिण— अल्लान्
 | ामाए : पूर्व :
 | | भी लेन देन हि
खर्च, लागत, प्र

 | जा राउसिंग फाईनेंस
तर इत्यादि सहित के | त लिमिटेब के प्रभार वारते निम्नहि | तेखित राशि अ | गैर उपरोक्तानुसार
 | र राशि पर संवि | वात्मक दर पर भरि | গৈ কা আন, থাকৰি
 | 9 |
| तला पाख शाहजहानल, काइल, सूबदार क
प्रदेश–202001, जरण व्याता संख्या 2268210080
दिलांक : 29–05–2024 | | नं. ३ से संबंधित है
हवान : उत्तर प्रदेश | I.
 | | बेकृत अधिकारी | जाता है।
इ. व
सं.

 | र्जवार/गारन्टर
एवं पत्ता | के नाम मांग सूचना ब
कब्जा सचना | ने तारीच | बकाया राशि
 | | अचल सम्पतियों | का विवरण
 | |
| 5 | यू.पी. होटल्स | लिमिटेड |
 | | | 1 आवेदन
भी राजवि
सिन्हा, बो
नगर, आल

 | मं. DL/DEL/PAND /
वोर प्रचाद सिन्दा जी
नी: 45–48ए. जे–5
गजी रसोई, पूर्वी दि
ल – 110092 | | 2022 | : 32,51,865/
स्वाज इत्यारि
 | प्रक्रीट में. 2
1080 वर्ग प
गौड़ सिटी
प्रीएकक क | 104, मॉफिस 20वीं
होट (26.47 वर्ग में
-2 कहरो है, पर
र मिसिर केवल | . टॉवर-सी, सुपर प्र
री.) प्रीजेक्ट जिसे ऐक
बॉट नं. खीएष-८३र्थ
-18सी, गीर सिटी, वे
बेटि
 | 6 平利学 |
| | सीआईएन : एलऽ५१०१डीएत
: 1101, सूर्य किरण, 19, क
फोन : 011—237 | (1961पीएलसी)0173)
तूरना गांधी मार्ग, ३
22596—98 | ৰ্হ্য বিক্লী—110
 | | | विल्ली, मा
विलांक : 28-

 | त - 110092
05-2024, स्थान : | यल्ला मह्या नह
गाजियाबाद | 1991 | प्राधि
 |) मोएस, उत्त
कृत अधिकार्र | र प्रवेश — 201013
ो, हिंदुजा हार्जा | । में स्थित
सेंग फाइनेंस सिमि
 | è |
| ई—मेलाः clarks
पृथयः | suryakiran@yahoo.co.ir
31 जार्च, 2024 को सजाप्त
कृत लेखापरीक्षित वित्तीय प | : वेबसाइट : wv
तिमाही और वर्ष :
रिणामों का संक्षिप्त | rw.hotelclari
हेतु
1 चिवरण
 | ks.com | | R

 | | SG FINS
(Formerly M | Acongina S | ocuritios Limi
 | Inot | |
 | |
| s. titteen | 31.03.202 | | 31.03.2023
 | ताख में सिवाय र
हर्ष
31.03.2024 | 31.03.2023 |

 | ET OF FINAN | CIN: LE
Registered Office: 37, Ha
ompliance@sgfinserve.com | |
 | | |
 | _ |
| । प्रणावनी से कुल अग्र
2. अगरि तेतु सुद्धा लाम ∕(हाँने) (सन, अगल
असाधारमा मन्द्र से पहले) | जेखापरीप्ति
4,800 9
दलक कम/जन्म 1,777.6 | 4,690.50 | जेखापरीखित
4,188.09
1,230.79
 | जेखापरीक्षित
14,650.59
4,229.95 | जेखापरीखित
13.682.02
3.182.01 |

 | | | |
 | (द in Lakhs e | except earning | per share data)
 | |
| अपनि मेतु सुद्ध ताम/(हानि), जन में फहते
जमक जलपाल्य मधी में नाद) | (STRATIONE and 1,777.6) | 1,772,43 | 1,230,79
 | 4,229.95 | 3,182.01 | S.
NO.

 | Particular | • | ŀ | Quarter
ended
31st March,
2024
 | Quarter
ended
Sist March,
2022 | Year
ended
31st March,
2024 | Year
encled
31st March,
2023
 | |
| । उन्नंधे देवु युद्ध त्यम∕(सणि), कर परमास (अन्न
उत्याधारमा नदी के बन्द] | ство от / зист 1,319.3 | | 876.51
870.68
 | 3,101.62 | 2.336.45
2.354.86 |

 | Total Income fro | | | 2024
Unaudited
5,854.99
 | 2023
Unaudited
2,753.53 | 2024
Audited
18,971.94 | 2023
Audited
4,196.18
 | |
| (शामे) (वर पाणत) तथा थया तमाउंगी
वाम्पिलि है
- तंबेच्यी मेग्रा वंगी | 540.0 | | 540.00
 | 540.00 | 540.00 | 2

 | | ceptional items)
s) for the period before tax | - | 3,190.98
 | 1,874.02 | 10,502.97 | 2,501.72
 | |
| सांग्रेच (उन्मूंग्रेजन सांग्रेच योजवर) तेला कि भेजते
तुरुत्वान में दर्शाया रुग्त है | वे वर्ग का लंगलगरीकित | |
 | 14,623.87 | |

 | (after Exception | | | 3,190.98
 | 1,874.02 | 10,502.97 | 2,501.72
 | |
| | रो और बड प्रमाहनों | |
 | - | 11,445.37 | 4

 | Net Profit / (Los
(after Exception | s) for the period after tax
al items) | | 2,380.17
 | 1,405.31 | 7,858.48 | 1,840.63
 | |
| | रो शेर तः प्रमारना
24.4:
24.4: | | 16.20
16.23
 | 58.92
58.92 | 43.27
43.27 | 5

 | Net Profit / (Los
(after Exception
Total Comprehe
[(Comprising Pr
and Other Comp | s) for the period after tax
al items)
insive Income for the period
ofit / (Loss) for the period (a
prehensive Income (after Ti
prehensive Income (after Ti | after Tax) | 2,380.17
2,380.17
 | 1,405.31 | 7,858.48 | 1,840.63
1,840.63
 | |
| 5 जीत रॉकर अर्थन (स. 107 – कर्चक कहा) (ता
तेरहा –
1. वहुवा :
2. वहाइए -
तेरहाइ :–
1. प्रवर्तिक परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा !
अपराधिक किन पर थे। | 24.4
24.4
पुनरीचिर किर गए थे और कम्पन | । 24.96
1 के निदेशक मंदल | 16.23
डारा उनकी 28
 | 58.92
मई. 2024 को अ | 43.27
43.27
व्योजित वेउक में | 5

 | Net Profit / (Los
(after Exception
Total Comprehe
(Comprising Pr
and Other Com
Equity Share Ca
Earnings Per St | a) for the period after tax
(a) items)
insive income for the period
(it / (Loss) for the period (it
prehensive income (after Ts
apital (of Rs.10/- each)
hare of Rs.10/- each | after Tax)
[ax)] | 2,380.17
 | 1,405.31 | 7,858.48 | 1,840.63
 | |
| 5 प्रति होबर अन्त्र (स. १७./ – फ्रांक कहा) (ज
मेर) –
1. एवः
2. तप्रहार :
वेद्रस :–
1. प्रयोगत परियान जेखायदिक्षा समिति द्वारा !
1. प्रयोगत परियान जेखायदिक्षा समिति द्वारा ! | 24.4
24.4
पुनरीचिर किर गए थे और कम्प्र-
र प्रकडीकरन अधाएं) जिनियमाव
हेरा प्रकारक विद्याप्र जीवनमां | । 24.96
1 के निवेशक मंदल
ही, 2015 के विनियम
के दिल्हा प्रारूप का
गडद www.hotelek | 16.23
डारा उनकी 28
33 के तहत रहीं
संहिए विवरण हे
arks.com 97 ज
 | 58.92
मई. 2024 को अ
ह एक्ससेन्जेज में
। रिम्मही परिगम
पतन्ध है। | 43.27
43.27
व्योजित वेउक में | 5
6
7

 | Net Profit / (Los
(after Exception
Total Comprehe
((Comprising Pr
and Other Com
Equity Share Ca
Earnings Per SI
(For Continuing
1. Basic
2. Diluted | s) for the period after tax
al items)
insive Income for the period
ofit / (Loss) for the period (a
prehensive Income (after Ta
apital (of Rs.10/- each) | after Tax)
[ax)] | 2,380.17
2,380.17
 | 1,405.31 | 7,858.48 | 1,840.63
1,840.63
 | |
| ि की सिंह अंग (२, १७) – इन्के २१ (ता
१८) –
१८ अगुरः
2. अगुरु:
1. अगुरात परिमान जेवापरिका सचिति जात
अनुरोदित स्वरु गए थे।
2. अगुरेता दिवरा गरेथे (सुरोत्तर परित जेत
2. अगुरेता दिवरा गरेथे (सुरोत्तर परित जेत
परिमार स्वरूप के प्रत्याहर www.bud | 24.4
24.4
पुनरीचिर किर गए थे और कम्प्र-
र प्रकडीकरन अधाएं) जिनियमाव
हेरा प्रकारक विद्याप्र जीवनमां | 1 24 86
ते के निदेशक मंदल
ते 2015 के विनियम
के दिल्लून झरूप का
गहर www.hotelels
वाप | 16.23
डारा उनकी 28
33 के लहल रहों
संसेध्य विवरण है
wks.com पर उ
से यू. पी. डोटरस
हरवा
र्थ कमार
 | 58.92
गई. 2024 को ज
ह एक्सचेन्चेज में
। रिम्मही वरिंगम
पत्का है।
लिमिटेड
८/-
कॉर्य | 43.27
43.27
व्योजित वेउक में | 5
6
7
Notes:
The st

 | Net Profit / (Los
(after Exception
Total Comprehe
([Comprising Pr
and Other Comp
Equity Share Ca
Earnings Per SB
(For Continuing Per SB
2. Diluted
Over is an extract of
BI (Listing Obligati | a) for the period after tax
(a) items)
insive income for the period
(it / (Loss) for the period (it
prehensive income (after Ts
apital (of Rs.10/- each)
hare of Rs.10/- each | after Tax)
[ax)]
d) (In Rs.)
Financial Re
ents) Regula | 2,380.17
2,380.17
5,497.90
4.33
4.23
esuits Filed with
titions, 2015. Th
 | 1,405.31
1,405.31
4,127.30
6.49
3.85
10he Stock Ex
te full format o | 7,858.48
7,858.48
5,497.90
15.72
15.31
change under R | 1,840.63
1,840.63
4,127.30
8.50
5.05
egulation 33 of
incial results is
 | |
| े की हमा भाग (भ, ७) – ठाउँ भा (भ
मर) –
1. हमा -
2. तम्हर
2. तम्हर
प्रतिप्र –
 | 24.5
22.5
24.5
24.5
24.5
24.5
24.5
24.5 | 1 24 86
ी के निदेशऊ मंदल
हैं, 2015 के विनियम
के दिल्तूत प्रारूप का
गढ़ट www.hotelds
वाप
वाप | 16.23
डारा उनकी 28
33 के लहल रहों
संसेध्य विवरण है
wks.com पर उ
से यू. पी. डोटरस
हरवा
र्थ कमार
 | চর দেই
লই, 2024 কা জ
চ হক্যার্কনাত ন
। বিদায়ী ববিসাদ
বেন্দ্র রী।
বিশিষ্টক
মন্দ্র
কা লিইব্রাক) | 43.27
43.27
कोगित बेटक में
प्रस्तुत किए गए
तं का पूर्ण प्रारूप
इ गुर्था | 5
6
7
Notes:
The at
the SE
availat

 | Net Profit / (Los
(after Exception
Total Comprehe
[(Comprehe
Equity Share Ca
Earnings Per SI
(For Continuing
2. Diluted
2. Diluted
over is an extract of
BI (Listing Obligati
Net on the website of | s) for the period after tax
al items)
raive income for the period
off / (Loss) for the period (
prehensive income (after Tr
apital (of Rs.10/- each)
Are of Rs.10/- each
Operations- Not Annualise
(The dotabled format of audited
and and Disclosure Requirems) | after Tax)
[ax)]
d) (In Rs.)
Financial Re
ents) Regula | 2,380.17
2,380.17
5,497.90
4.33
4.23
sults Filed with
tions, 2015. Th
fon the website
 | 1,405.31
1,405.31
4,127.30
6,49
3.85
10 E Stock Ex-
te full format o
o of the Compa | 7,858.48
7,858.48
5,497.90
15.72
15.31
change under R
f the Audited fina
ny at www.sgfin | 1,840,63
1,840,63
4,127,30
8,50
5,05
sequeision 33 of
incial results is
serve com
 | |
| है का साथ भाग | 24.2
22.2
24.00 मेर मार के और स्वरूप
र प्रकारिक जीवरणे जीवाया
र प्रकारिक जीवरणे जीवाया
संदु प्रवद्य किरोप के स्वर
स्वर्धन का अप्रेय की स्वर
स्वर्धन के प्रॉप्यटी | 24.86
गै के निदेशक मंदल
ही 2015 के विंगियम
में दिलुन शब्द क
गएट www.hotelds
वा
अप्
औ | 15.23
डारा उनकी 28
33 के तहत रउने
लेखित विवरण रे
से यू. पी. होटरस
हरत
रं बुम्बर
(बुम्बर प्
राईरम : 0004383
 | চর 92
পই, 2024 কা জ
চ হক্যেটালাল ন
। বিশাহী ববিসাদ
বেন্যে ই।
বিশিষ্টক
দেশৰ
কয় শিৱিয়াক) | 43.27
43.27
कोगित बेटक में
प्रस्तुत किए गए
तं का पूर्ण प्रारूप
इ गुर्था | 5
6
7
Notes:
The at
the SE
availat

 | Net Profit / (Los
(after Exception
Total Comprehe
([Comprising Pr
and Other Comp
Equity Share Ca
Earnings Per SB
(For Continuing Per SB
2. Diluted
Over is an extract of
BI (Listing Obligati | s) for the period after tax
al items)
raive income for the period
off / (Loss) for the period (
prehensive income (after Tr
apital (of Rs.10/- each)
Are of Rs.10/- each
Operations- Not Annualise
(The dotabled format of audited
and and Disclosure Requirems) | after Tax)
[ax)]
d) (In Rs.)
Financial Re
ents) Regula | 2,380.17
2,380.17
5,497.90
4.33
4.23
sults Filed with
tions, 2015. Th
fon the website
 | 1,405.31
1,405.31
4,127.30
6,49
3.85
10 E Stock Ex-
te full format o
o of the Compa | 7,858.48
7,858.48
5,497.90
15,72
15,31
the Audied fina
ry at wave splin
of the Board of the Board
SG FINSE | 1,840.63
1,840.63
4,127.30
8,50
5.05
egulation 33 of
Inclair results is
serve.com
 | |
१ २००० २	24.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0	24 86 में के मिदेराज करत है 2016 के मिनेसम के लिल्हा राख्य का माहट www.lottele आ आ र र र र र र र र र र र र र र र र र	१६ २३ जारा जनकी २८ ३३ के तकर रही संकेर प्रेयरण है संकेर प्रेयरण है संकेर प्रेयरण है संकेर प्रेयर है संकेर प्रेयर संकेर स्वित स्वेर संकेर प्रेयर संकेर प्रेयर संकेर प्रेयर संकेर संकेर संकेर संकेर संकेर प्रेयर संके संकेर संके संके संकेर संकेर संकेर संकेर संके संके संके संके संकेर संके संके संके संके संके संकेर संकेर संके संके संके संके संकेर संके संके संके संके संके संके संके संके	চর দ্রহ লই, ২০২৭ কা জ হ হেমানানার র । বিশায় বর্ষা বিশিষ্টর দেশ হা কা নিশ্বিয়ক) ৪৪ জানার্ছলে :	43.27 43.27 कोगित बेटक में प्रस्तुत किए गए तं का पूर्ण प्रारूप इ गुर्था	5 6 7 Notes: The at the SE availat	Net Profit / Los (after Exception Trial Comprehent ((Comprising Pr and Other Com Earnings Per St (For Continuing) 1. Basic 2. Diluted ovel is an oxtract.ol al (Liking Oxteliant Liking Contention Liking Oxteliant Delhi May 28, 2024	a) to the period affer tax and all terms) marker income for the period of the other period of the period of the detailed of the period of the period of the other period of the period of the period Coperations: Not Annualises the detailed format of audited the detailed format	after Tax) ax)] d) (In Rs.) I Financial R ents) Regula I financial R ents) Regula I financial R ents) Regula	2,380.17 2,380.17 5,497.90 4.33 4.23 4.23 4.23 For and For and	1.405.31 1.405.31 4.127.30 6.49 3.85 a the Slock Ex- te full formato of the Compa d on behalf	7,358.48 7,858.48 7,858.48 5,497.90 15,72 15,31 change under R the Audied final change under R SG FINSE	1,840,63 1,840,63 4,127,30 4,127,30 8,50 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,0	-
का तम अने (२, ७) - वर्ज वर्ग (२) गुग - गुग - वर्ग (२) २, गुग - २	२३.६ २३ व्हाविल जेवल् अवल् भिष्ठाया १ वहाविल अवल् भिष्ठाया १ वहाविल अवल् भिष्ठा व्हाया का क्रम्भे के सम व्हाया की प्रॉपर्टी वलप्र में ट कंपर्ज	24 86 ন ক নির্বাচন করে দি 2015 ক নির্ণানম্ম দি 2015 ক নির্ণানম্ম দিরে প্রথম বার্বি বার্বার্বি বার্বি বার্বা বার্বা বার্বি বার্বি বার্বা বার্রা বার্রা বার্বা বার্বা বার্বা বার্বা বার্বা বার্রা বার্বা বার্রা বার্বা বার্বা বা বা বার্বা বার্বা বা বা বার্বা বার্বা বা বা	16.23 द्वारा उनकी 28 23 के लबर दर्ग संबद्ध प्रियल है प्रे दु की होस्ट (बे कुछर (बेकुछर (बेकुछर (बेकुछर कुछर) (बेक्रिक) –1 2333 dmarkprope	5832 मई. 2024 की आ इ. एकसकेजेज में िकसे देरेग िकसे देरे िकसे देरे िकसेक्ट मंद्र में में किसेक्ट में 10 001 r(y.in	45,27 45,27 मोरित 45% में एम्सुर किए गए ते का पूर्य करूप 7 गुप्ता 00007310	5 6 7 The at the SE availat Place : Date :	Net Profit / Los (date: Exception Total Comprehe ((Comprising Pr and Other Com Equity Share Cr Earnings Pers Share Cr Earnings Pers Share Cr (For Continuing 1. Basic 2. Diluted vore is an extract of 81 (Laing Obligati le on the vostile Cr Delhi May 28, 2024	a) for the period after tax, all terms) markine income for the period (off /(Loss) (for the period (off // parkensive) income (after 1) (after 1) (after 1) (after 1) (after 1) mark of Rs 100- each Operations, Not Annualise Control (after 1) (a	after Tax) ax)] d) (In Rs.) IFinancial Re ents) Regula dia com and TISERIU Italia at 14/ 12/4, 01/	2,380.17 2,380.17 5,497.90 4.33 4.23 sults Filed with tions 2015. The For and For and Up: 2+7 + 2 2074-7, 342 2074-7, 342	1,405.31 1,405.31 4,127.30 6,49 3,85 10 the Stock Ex- te full format o of the Compa d on behalf d on behalf t ch-tut t ct, grin a	7,858.48 7,858.48 7,858.48 5,497.90 165.72 15.31 15.31 16args under R 50 FINSE SG FINSE 161, feetHat it, feetsarreng write u, this surreng	1.540.63 1.540.63 1.540.63 4.127.30 4.127.30 5.05	
े का हम नम २०.२ ७२ - वया भर (त गर) - १९११ - १९११ - १९११ - १९११ - १९१४ - १९४२ - १९४४ - १९४२ - १९४२ - १९४२ - १९४२ - १९४४ - १९४२ - १९४२ - १९४४ - १९४२ - १९४४ - १९४ - १९४ - १९४४ - १९४ - १९४ - १९४४ - १९४ - १९४ - १९४ - १९४ - १९४ - १९४ - १९४ - १९४२ - १९४ - १९२ - १९ - १९४ - १९२ - १९ - १९ - १९ - १९२ - १९२ - १९४ - १९४ -	24.6 224 224 224 224 224 224 224 224 224 22	 24.86 २.21.86 में पीनेशफ संदत में पीनेशफ संदत में पीनेशफ संदत कर्ष भीनेशफ संदत कर्ष भी कर्ष भी कर्ष भीनेशफ संदत कर्ष भीने भीने भीने भीने भीने भीने भीने भीने	16.23 द्वारा उनकी 28 33 के तकर करें क्रेस प्रियल है फ्रेंस प्रियल है के प्रमुख करें के प्रमुख करें के प्रमुख करें के प्रिल्मी —1 1/333 dmarkprope की द्वार परिष्ठार दि	5332 नहें, 2024 को आ । फिल्मो देशाम (फिल्मो देशाम दिलोस्टेड के स्वेलाइएन : का स्वेलाइएन : 10 001 rty.in 11 001 (वर्ष स्व	43.27 45.27 स्वोतित स्टब्स् सं प्रमुद्ध किए गए ती तम पूर्ण उत्सव कठठठ7310 बारित	5 6 7 Notes: The SE available Place : Date :	Nel Profit / Los de la ferre Scoption d'arte Exception d'arte Exception d'arte Exception d'arte de la ferre Scoption de la ferre Scoption de la ferre	a) for the period affer tax and all terms) marker income for the period (17) (Loos) for the period (pathemative income failther (pathemative income fail	after Tax) ax)] d) (In Rs.) d) (In Rs.) i Financial R. ents) Regula xlia.com and tail rd. 1a/ tail rd. 1a/ tail rd. 1a/ tail rd. 1a/ tail rd. 1a/	2,380.17 2,380.17 5,497.90 4.33 4.33 4.23 suits Field with tions, 2015. The For and For and Constant, 2015. The Constant, 2	1,405,31 1,405,31 4,127,30 6,49 3,85 10he Stock Ex e full format of e full format of e full format of e full format of e full format of track and the full format of e full fo	7,858.48 7,858.48 7,858.48 5,497.90 16,72 16,31 thange under R frie Audited than you at way signification of the Board of SG FINSE	1.540.63 1.540.63 1.540.63 4.127.30 4.127.30 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5	
में मार भाग (भ. ७ - २०७३ भा) दा मार मार २ नगर २ नगर २ नगर २ नगर २ नगर भाग (भ. १२) भाग (भ. १२)	24.6 224 224 224 224 224 224 224 224 224 22		16.23 जना उनकी 26 33 की लबर स्टी- वर्षिय विश्वल के 1 फू दी के संस्था दी कु दी के संस्था प्राई दिल्ली —1 1/333 dimarkprope की दिल्ली —1 1/333 dimarkprope की द परिधान की या जाव मार्ग- ये ये ये जाव मार्ग-	हव 32 नई. 2024 को आ 1 फिल्मी परेमा 2024 की विकेश क विकेश क की स्वीप क की स्वीप कि की स्वीप कि की स्वीप कि की स्वीप कि की स्वीप कि की स्वीप की की स	43.27 43.27 महोतिस 45क में एचनु किंग गर ती बन पूर्य करवय 60007310 हारित हर्ष्य (2003) हारित हर्ष्य (2003) हार्म्य (2003) हार्म्य (2003)	5 6 7 Notes: The at the SE available Place = Date : The at from the action from	Nel Profit / Los (after Ecospito / Los (after Ecospito / Los (after Ecospito / Los (Comprishe Prand Other Company) and Other Company Ecospito / Los (Los (Los (Los (Los (Los (Los (Los	b) or the period affer tax all lemm) makes income for the period period (1) (cose) (set the period () patientswise income (affert) (1) (cose) (set the period () patientswise income (affert) and of the 10-cose () and of the 10-cose () and tax and () balcaux effect () end and () and () and (after Tax) ax)) d) (In Rs.) I Financial Re ents) Regula tiali at. 1a/ tiali at. 1a/ tia/ tiali at. 1a/ tiali at. 1a/ tial	2,380.17 2,380.17 2,380.17 5,497.90 4,33 4,23 suits Filed with tions, 2015. Th ion the website For and Uniget 4. 2014.7, 992 1071 Hara, 5 497 1071 Hara, 5 497 1071 Hara, 5 1071 Ha	1,405,31 1,405,31 4,127,30 6,49 3,85 1,106 Stock Ex- is full forma co- of the Stock Ex- is full forma co- of the Stock Ex- is full forma co- forma co- forma co- forma co- forma co- state full forma co- forma co- fo	7,858.48 7,858.48 7,858.48 5,497.90 15,72 15,31 thange under R the Audied fina sG FINSE SG FINSE SG FINSE C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1.540.63 1.540.540.540.540 1.540.540.540.540.540.540.540.540.540.540	1
	24.6 22.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0		16.23 जारा उनकी 26 33 की लबर स्टी- वर्षियर विवरु है में पू भी के सरस्प में पू भी के सरस्प (लिखर प्र नाई दिल्ली –1)1333 Imarkprope की टिफाय हि में प्र भी क्रम के कि	6892 नहें, 2024 को आ । फैलाही दर्पमान जिल्हें- दिलहिन्दे- //- स्पन स्वय के जिल्लाह्य 10 001 rty.in ते का दिवरण्य (वर्ष स्व	43,27 43,27 मोरित 43,27 मोरित 43,26 प्रस्तुत किए गर 11 का पूर्ण प्रस्तुत 00007310 करित करमे / तिख	5 6 7 7 Notes: The state the SE second state is the SE second state is the SE second state is the state i	Nel Profit (Los defre Cooption (Los defre Cooption) (Los defre Cooption) (Comprehender Comparisher Comparisher (Comparisher) (Prof Continuing) (Prof Continu	a) or the period affer tax and all terms) marker income for the period. Tracker income for the period (17) (Loos) for the period (17) (Loos) for the hearts (17) (Loos) for the hearts (17) marker of the 10 constant) marker of the 10 constant (17) and the constant (17) (Loos) for the heart of the constant (17) (Loos) for the heart	after Tax) [ax]] d) (In Rs.) [Financial R Rs.] [Financial R Rs] (solid a com and dia com dia com and dia com and dia com dia com and dia com dia com di com dia com dia com dia com dia com dia com dia com dia com d	2,380.17 2,380.17 2,380.17 5,497.90 4,33 4,23 90:46 Fibod with tions,2015 Th tion the website For and For and For and tions,2015 Th tion the website The yearts a set update fibod with tion get a set tion and the set tion and the set tion and the set tion and t	1,405.31 1,405.31 4,127.30 6,419 3,365 6,419 7,40 4,127.30 3,365 6,419 7,40 4,127.30 3,365 6,419 7,410 4,127.3	7,858.48 7,858.48 7,858.48 5,497.90 165.72 16.31 thange under R the Audied the the for the Board of the Board of the Board of the Board of the Board of the Board	1.840.63 1.840.63 1.840.63 1.840.63 4.127.30 4.127.30 8.50 5.05	1
हे गर प्रमार भेग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भा	24.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4		16.23 उत्तरा उत्तर्भ 28 उता राज्य 28 3.8 सं त्यवरा उत्तरी संविध 134 रण 3 प्रेंग 30 से संविध 134 रण 3 हरवा प्रेंग 30 से संवध 134 रण 3 101333 Ilmarkprope स्ती टेंड दिल्ली 1 प्रायम 34 रण 3 1114 रण 3 - गार्च-अ.3 1114 रण 3 - गार्च-अ.3 1116 रण 3	6832 मई. 2024 की आ ह (उसलेकोज में 1 (नेकडी देने प्रत्न हैं। (नेकडी देने हाने के जिलेका आ की जिलेका (नेकडी) की जिलेका (नेकडी) की की दिराय (कडी नेकडी) की की दिराय (कडी नेकडी) की कि कडी की कि कडी की कि कडी की कि कडी की कडी कडी की कडी की कडी कडी की कडी कडी की कडी कडी कडी कडी की कडी कडी कडी कडी कडी कडी कडी कडी कडी कडी	43.27 43.27 43.27 मधीरित 43.27 ति 43 पूर्य उत्तरु 9 पुर्या 60007319 हर्षित प्रयु उत्तरु 9 पुर्या 60007319 हर्षित प्रयु उत्तरु 9 पुर्या हर्षित क्षेत्र प्रयु व्यक्त हर्षित क्षेत्र प्रयु प्रयु व्यक्त हर्षित क्षेत्र प्रयु उत्तरु 9 पुर्वा हर्षित क्षेत्र प्रयु प्रयु व्यक्त हर्षित क्षेत्र प्रयु व्यक्त	5 6 7 - Notice - The SE - In SE - Place : - Date : - In SE - In Constant - In SE -	Not Profit / Los (after Exception Total Comprehension Compared and Comprehension Compared and Co	a) for the period affer tax all allema) makes income for the period (17) (Loos) for the period (parkensive income failther ' alle (17) (Loos) for the period (parkensive income failther ' alle (17) (Loos) for the period (parkensive income failther ' all (17) (Loos) for the period (all (17) (Loos) for the period (17) (Loos) for the period (17) (17) (Loos) for the period (17) (Loos) (17) (Loos) for the period (17) (Loos) (17) (Loos) (17) (Loos) for the period (17) (Loos) (17) (Loos) (17) (Loos) (17) (Loos) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17	after Tax) [ax]] d) (In Rs.) [Financial R Rs.] [Financial R Rs] (solid a com and dia com dia com and dia com and dia com dia com and dia com dia com di com dia com dia com dia com dia com dia com dia com dia com d	2.380.17 2.380.17 2.380.17 2.380.17 5.497.90 4.33 4.43 4.43 4.43 5.015.17 5.015.17 5.015.015.015 Flort output For and Tor and Tor and Tor and Tor and Tor and Tor and Soft and a single Soft and a	1,405.31 1,405.31 1,405.31 4,127.30 6,49 3,365 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 3,65 4,127.30 4,127.30 3,65 4,127.30 4,127.30 4,127.30 3,65 4,127.30	7,858.48 7,858.48 7,858.48 5,497.90 16,72 16,311	1.540.63 1.840.63 1.840.63 4.127.30 4.127.30 4.127.30 8.50 5.06 1.50 1	
			16.23 जग जग 28 जग जग 28 3.3 क त्या राण्डे जग जग राण्डे ते का ती राज्य राण्डे जग जग राण्डे ते का ती राज्य राण्डे जग जग राण्डे का राज्य राण्डे ता राज्य राण्डे का राज्य राण्डे ता राज्य राज्	5832 ====================================	43.27 43.27 स्वीरित रेज्य के एक्ट्रा कि पर प् ते का पूर्य जरूप क नुप्ता (अंड्राप्ट के प् का-ग्वरि- के (अंड्राप्ट के प्रि. के (अंड्राप्ट के प्र. के (अंड्रा))))))))))))))))))))))))))))))))))))	5 6 7	Not Profit (Los Gafer Cacopion (Los Gafer Exception Total Comprehence) (Comprehence) (Comparing the second	७) ठा क कुमार्थ जीवार (उ	after Tao) (ax)) () (IP Rs.) () (IP Rs.)	2.580.17 2.580.17 5.497.00 4.53 4.43 4.43 For and For and For and For and For and for website affect even for and for website affect even for and for and fo	1,405.31 1,405.31 1,405.31 4,127.30 6,49 3,355 6,49 4,412 3,355 6,49 3,355 6,49 3,355 6,49 4,412 3,355 6,49 4,412 3,355 6,49 4,412 3,355 6,49 4,412 3,355 6,49 4,412 3,355 6,49 4,412 3,355 6,49 4,412 3,355 6,49 4,412 3,355 6,49 4,412 3,555 6,49 4,412 3,555 6,49 4,412 3,555 6,49 4,412 3,555 6,49 4,412 3,555 6,49 4,412 3,555 6,49 4,412 3,557 6,49 4,412 3,557 6,49 4,412 3,557 6,49 4,412 3,576 4,412 4,576 4,412 3,576 4,412 4,576 4,412 4,576 4,412 4,576 4,576 4,412 4,5764,576 4,57664,576 4,576664,5766 4,5766 4,57666666666666666666666666666	7, 255, 40 7, 255, 40 5, 407, 50 15, 77 15,	1.840.63 1.840.63 1.840.63 1.840.63 4.127.30 4.127.	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
ति पर भरेत (२ २) - स्वय सर (२) - र २) -	24.6 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8		16.23 जग राज्य राज्	08.92 सर, 2024 की जब क एक्सानेजर के पिक्सा के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास कि विकास	43.27 समेतित 45क से प्राव्युत किए गर ते सा पूर्ण जिल्ला का सा पूर्ण जिल्ला किला प्राप्त कि.87 (लेख्या परिवार (लेख्या परिवार) (त 39.17) ((654.08)	5 5 0 7 7 7 Notes: 7 7 7 7 7 8 7 9 7 9 7 <td>Not Profit / Los (after / Los (after / Los (after / Exception / Los (after / Exception / Los (Comprehendres))))))))))))))))))))))))))))))))))))</td> <td>a) for the period affer tax all allema) makes income for the period (17) (Loos) for the period (parkensive income failther ' alle (17) (Loos) for the period (parkensive income failther ' alle (17) (Loos) for the period (parkensive income failther ' all (17) (Loos) for the period (all (17) (Loos) for the period (17) (Loos) for the period (17) (17) (Loos) for the period (17) (Loos) (17) (Loos) for the period (17) (Loos) (17) (Loos) (17) (Loos) for the period (17) (Loos) (17) (Loos) (17) (Loos) (17) (Loos) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17</td> <td>तीका Tao) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२</td> <td>2.580.17 2.580.17 5.497.00 4.53 4.43 4.43 For and For and For</td> <td>1,406.51 1,406.51 1,405.31 4,127.30 6,49 3,365 6,49 3,455 6,49 3,455 6,49 4,47</td> <td>7,555.48 7,555.49 7,555.49 15,577 15,</td> <td>1.540.63 1.540.63 1.540.63 1.540.63 1.540.63 4.127.30 4.127.30 4.127.30 4.127.30 4.127.30 4.127.30 4.127.30 6.05</td> <td></td>	Not Profit / Los (after / Los (after / Los (after / Exception / Los (after / Exception / Los (Comprehendres))))))))))))))))))))))))))))))))))))	a) for the period affer tax all allema) makes income for the period (17) (Loos) for the period (parkensive income failther ' alle (17) (Loos) for the period (parkensive income failther ' alle (17) (Loos) for the period (parkensive income failther ' all (17) (Loos) for the period (all (17) (Loos) for the period (17) (Loos) for the period (17) (17) (Loos) for the period (17) (Loos) (17) (Loos) for the period (17) (Loos) (17) (Loos) (17) (Loos) for the period (17) (Loos) (17) (Loos) (17) (Loos) (17) (Loos) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17	तीका Tao) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२) (२	2.580.17 2.580.17 5.497.00 4.53 4.43 4.43 For and For	1,406.51 1,406.51 1,405.31 4,127.30 6,49 3,365 6,49 3,455 6,49 3,455 6,49 4,47	7,555.48 7,555.49 7,555.49 15,577 15,	1.540.63 1.540.63 1.540.63 1.540.63 1.540.63 4.127.30 4.127.30 4.127.30 4.127.30 4.127.30 4.127.30 4.127.30 6.05	
के कि एम भगे (भ. ७) - वजे भा (दी मार गर) - 1. हा। ३ - वर्ग्सन सेना केवनकेव सीकी जग २ - वर्ग्सन सेना केवनकेव सीकी जग भाषा - 1. वर्ग्सन सेना केवनकेव सीकी जग भाषा - 1. वर्ग्सन सेना केवनकेव सीक रदीव एसराज्य के मेग्सीय साम केवनकेव रदीव एसराज्य के मेग्सीय स्थापन केव रदीव एसराज्य के मेग्सीय स्थापन केव केवस्य प्रथम केव प्रथम केव सिंह युद्ध वापन (साम) केव से सिंह वापन केव केविस युद्ध वापन राजु के साप्र केवर में प्रथम केव वापन एसरे केवर प्रथम केव केवर भाषा कावाला पार्जु के साप्र केवर भाषा कावाला पारजु के सार्य केवर केवरा कावाला पारजु के सार्य कावाला स्थाय केवरा काव कावाल स्थाय केवरा केवरा केवरा काव कावाल संस्था केवरा केवरा केवरा काव कावाल संस्था केवरा केवरा केवरा काव कावाला स्थाय केवरा कावाला कावाला काव काव कावाला स्थाय केवरा केवरा केवरा काव कावाला स्थाय केवरा केवरा केवरा केवरा काव कावाला स्थाय केवरा केवरा केवरा केवरा काव कावाला केवरा केवरा केवरा केवरा केवरा काव कावाला स्थाय केवरा कावाला काव काव कावाला स्थाय केवरा केवरा केवरा केवरा काव कावाला स्थाय केवरा केवरा केवरा काव कावाला स्थाय केवरा केवरा काव केवाला काव कावाला स्थाय केवरा केवरा केवरा काव कावाला कावाला कावला केवरा काव कावाला स्थाय केवरा केवरा केवरा काव कावाला स्थाय केवरा केवरा काव कावाला केवरा केवरा केवरा केवरा काव कावाला केवरा केवरा केवरा केवरा काव काव कावाला केवरा केवरा केवरा केवरा केवरा केवरा काव कावाला कावाला कावाला कावाला कावाला कावाला काव कावाला केवरा केवरा केवरा केवरा केवरा काव काव कावाला केवरा केवरा केवरा केवरा काव का	24.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6		11.2.2 고리 대 대한 모두 가 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다	53.922 et. 30.4 et al. 40 et. 100 et al. 40 et al. 4	43.27 43.27 43.27 43.27 43.27 43.27 9.27 9.27 9.27 9.27 9.27 9.27 9.27 9	0 0 0 0 0 0 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 9 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	Nel Profit (Los (after Cacepton Carl Carl Cacepton Comprehender) (Los Camprehender) (Comprehender) (Comprehende	a) or the period affect tax and alleman) marker income for the period affect tax income for the period of (1/1000) for the period of (1/1000) for the hearts of (1/1000) for the period of the form of the 10-each constraints of the 10-ea	after Tao) (ax)) (d) (in Ra.) (d) (in Ra.) (d) (in Ra.) (d) (in Ra.) (d) (in Ra.) (d) (in Ra.) (d) (in Ra.) (in Ra.) (i	2.580.17 2.580.17 2.580.17 4.33 4.33 4.33 4.32 For and For	1.405.31 1.405.31 1.427.30 4.127.50 4.127.		1.540.63 1.540.63 1.540.63 1.540.63 4.127.30 8.50 5.05 6.05	त्म म म म म म
में से साथ भने २०. २०. २०. २०. २०. २०. २०. २०. २०. २०.	24.6 24.6		11.2.2 जात जनक के 31 लखन गी। जीवन प्रेस के 11 लखन जात के 11 लखन जात जात के 11 लखन जात जात जात के 11 लखन जात जात जात के 11 लखन जात	E 3 3 2 E 3 3 2 E 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4	43.27 43.27 43.27 संग्रेडिय 450 से प्राण्ड किए मा मा मा पूर्ण करण कर पूर्ण करण कर मा कर मा संग्रेड करण कर मा संग्रेड करण (मेख्य फेस्ट्रिक) (क्विय फेस्ट्रक) (क्विय फेस्ट्रक) (क्विय फेस्ट्रक) (क्विय फेस्ट्रक) (क्विय फेस्ट्रक) (क्विय फेस्ट्रक) (क्विय फेस्ट्रक)	0 0 0 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 1	Not Profit (Los (after f. Copport) (after f. Copport) (Comprehender) (Comparing the comprehender) (Comparing the comparison of the comparison (for Continuing 1. Basec 2. Diuted 1. Basec 2. Diuted (Lenny Collegater) (for Continuing 1. Basec 2. Diuted (Lenny Collegater) (Continuing the continuent of the continuent (Lenny Collegater) (Continuent) (Lenny Collegater) (Lenny Co	a) or the period affer tax all lamm) makes income for the parket period affer tax all lamm) makes income for the parket period (1, coss) (are the parket d) period (1, coss) (are the parket d) use of far. 10- each Operations- Not Armustise the databet format of addited and the cost of the second and	after Tao) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	2.580.17 2.580.17 5.497.90 4.33 4.33 4.32 For an For an	1.405.31 1.405.31 1.405.31 4.127.30 4.127.	7,558,48 7,558,49 7,558,49 5,647,50 15,577 1	1.840.63 1.840.63 1.840.63 1.840.63 1.840.63 1.840.63 1.840.63 1.940.630.63 1.940.63	्या म स म स स स म म म म म म म म म म म म म म
से गण भगे ५, ५, ५, ०, ० वज स्() वा गण,, गा, २, ०गुग,, गा, २, ०गुग,, गा, २, ०गुग,, गा, २, ०गुग,, गा, २, ०गुग,, गा, २, ०गुग, मा, गा, २, ०गुग,, गा, २, जगीत के प्राप्त भगा, गा, २, ०गु, २, ०गु, २, २, २, २, २, २, २, २, २, २, २, २, २,	24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6		11.2.2 वारा जम्मे के 31 लखा गौ किंका फेका है 31 लखा गौ 31 लखा गौ 31 लखा गौ 12 लखा गी 12 लखा	53.92 et. 30.4 et al. 40 et. 100 et al. 40 et. 1	43.27 43.27 43.27 43.27 43.27 43.27 9.27 9.27 9.27 9.27 9.27 9.27 9.27 9	6 0 7 1 7 1 7 1 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7	Not Profit (Los Gafer Cacopito Catal Comprehe (Comprehe Equity Share Catal Equity Share Catal Equity Share Catal Equity Share Catal Equity Share Catal Equity Share Catal Equity Share Catal (For Continuing 1. Base 2. Diuted Catal Share Catal Catal Share Catal (Lining Catal Catal Share Catal Catal Share Catal Catal Share Catal	b) or the period affect tax all lemmin in the period affect tax all lemmin interve income for the period in the period (i) (Loos) to the hearts (i) (i) (Loos) to th	after Tao) (ax)) (bx))(bx))	2.580.17 2.580.17 5.497.60 4.33 4.23 3.467.7604 4.33 4.22 For ance For ance For ance For ance 1.15 Figure 4. 1.15	1.405.31 1.405.31 1.405.31 4.127.30 6.40 3.65 3.65 4.127.30 4.127.30 6.40 4.127.30 6.40 4.127.30 6.40 4.127.30 6.40 4.127.30 6.40 4.127.30 6.40 4.127.30 6.40 4.127.30 6.40 4.127.30 6.40 4.127.30 6.40 4.127.30 6.40 6		1.840.63 1.840.63	त्वा मि मि मि मि
ते सार्व प्रदेश के प्रति के प्रत के प्रति के प्रत के प्	हे है है 28 में 28 मा		11.2.2 21.07 ज्या के 200 million 31.07 ज्या के 200 million 32.07 ज्या के 200 million	18.322 18.32 18.32 18.32 19.32	43.27 47 4.27 47 4.27 47 4.27 47 4.27 4.27	0 0 0 0 0 0 7 1 1 0	Nel Profit (Los Gafer Cacopito (Los Gafer Cacopito (Los Gafer Cacopito (Los Gafer Cacopito (Los Camprehe III)))) (Comprehe III) (Comprehe IIII) (Comprehe III) (Comprehe IIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIIII) (Comprehe IIIII) (Comprehe IIIIII) (Comprehe IIIIII) (Comprehe IIIIII) (Comprehe IIIIII) (Comprehe IIIIIII) (Comprehe IIIIII) (Comprehe IIIIIIIII) (Comprehe IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	b) or the period affect tax all lemminy of the period affect tax all lemminy or ranker income for the period (1/1006) for the hearts of the tax and the period of the tax and tax	after Tao) (ax)) (bx))(bx))	2.580.17 2.580.17 5.497.60 4.33 4.23 3.467.7604 4.33 4.22 For ance For ance For ance For ance 1.15 Figure 4. 1.15	1.405.31 1.405.31 4.127.30 4.127	7,558,49 7,558,49 7,558,49 5,5497,80 5,5497,80 5,5497,80 5,5497,80 7,557,547 1,557 1,577 1	1.840.63 1.940.63	म्म () ज्या मि मि
हे गरा पर प्रदेश, फ. फ. टक्क, सर, दर गरा,, गरा, २. रहार, २. रहार, २. रहार, २. रहार, २. रहार, २. रहार, २. रहार, २. प्रतिक्ष विद्युं प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश, २. प्रतिक विद्युं प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश, २. प्रतिक विद्युं प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश, २. प्रतिक विद्युं प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश, २. प्रतिक विद्युं प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश, २. प्रतिक विद्युं प्रदेश, प्रदेश, २. प्रतिक विद्य, २. प्रतिक विद्युं प्रदेश, २. प्रतिक विद्युं प्रदेश, २. प्रतिक विद्युं, २. प्रतिक विद्युं, २. प्रतिक विद्युं, २. प्रतिक विद्य, २. प्रत	24.6 226 226 226 226 226 226 226 226 226 2		11.2.2 11.2.2 11.2.3 11.2.3 11.2.4 11.2.	E3 32	43.27 43.27 43.27 43.27 43.27 14.27 1	8 0 0 7 7 7	Nel Profit (Los (after Keuplen)) (after Keuplen) (Compressing Keuplen) Equity Share Compressing (Compressing Keuplen) Equity Share Comparison (Compressing Keuplen) Equity Share Comparison (Compressing Keuplen) (For Continuing 1) Equity Share Comparison (Compressing Keuplen) (For Continuing 1) Share Comparison (Compressing Keuplen) (For Continuing 1) Share Comparison (Compressing Keuplen) (For Continuing 1) Share Compressing Keuplen) (For Continuing 1) (For Continuing	b) or the period affect tax all lemm) network of the partial of the parting the partial of t	after Tao) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	2.580.17 2.580.17 5.497.00 4.33 4.23 water Florten 4 4.22 For another For a	1.405.31 1.405.31 4.127.30 4.127	7, 758 48 7, 758 48 7, 758 48 7, 758 49 7, 758	1.840.63 1.840.630 1.840.630 1.840.630 1.840.630 1.840.630 1.840.630 1.840.630 1.840.630 1.840.630 1.840.630 1.840.630 1.840.630 1.840.630 1.840.630 1.840.630	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
हे जिस्स प्रमान २२ विष प्रमान के प्राम के प्रमान के	24.6 226 226 226 226 226 226 226 226 226 2		11.2.2 11.2.2 11.2.3 11.2.3 11.2.4 11.2.		43.27 43.27 43.27 43.27 43.27 9 प्रदा 9 पुद्धा किए न 9 पुद्धा 1 at पूर्ण मण्डन 9 पुद्धा 1 at पूर्ण मण्डन 9 न्यूपा 1 at पूर्ण मण्डन 9 न्यूपा 1 at पूर्ण मण्डन 9 न्यूपा 1 at पूर्ण मण्डन 9 न्यूपा 1 at प्रि 1 at प्र 1 at (at to totto 1 at tottotto 1 at totto 1 at tottotto 1 at t	6 0 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 8 1 9 1 9 1 1 1	Not Profit (Los Gafer (Los Gafer) (Los Gaf	७) or the period affer tax . a) or the period affer tax . all terms) rankve income for the pack of (1,006) (or the partial (1,007) rankwe income for the pack of (2,006) (or the partial (1,007) rankwe of Rs 10-ceach Coperations- Nod Armusties of Rs 10-ceach Coperations- Nod Armusties (1,007) (or the pack of the databad format of addited another, and the ceach another, and the ceach another, and the ceach another, and the ceach another, and the ceach another and the ceach and the ceach and the ceach another and the ceach and the ceach	after Tao) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	2.580.17 2.580.17 5.497.50 4.33 4.23 Mark Florterial For and For and For and For and For and For and for the website for an event for an event	1.405.31 1.405.31 1.405.31 4.127.30 4.127	7,758,48 7,758,48 7,758,48 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,49 7,758,40 7,7	1.840.63 1.840.630 1.840.630 1.840.630 1.840.630 1.840.630 1.840.6	ज्यात्मक नर्मा गर्मात का ज्यातीय ज्यात्मक

- पंती. वार्या. वस वैक हाउस, ऑफ वेस्टने एवस ✓ YES BANK हॅस्ट, मुख्यई, महालङ्-40055 शाखा कार्यालरः नगर (वेस्ट), नई दिल्ली-110018 वेबसाईट: ww

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचन तिभूति हित (प्रव

अपन, मार्थलांग भी किस्मी के लिये हिस्मी सुवा प्रतिष्ठ कि (उनकी) तिल्वान्ती 2004 कि लिया 4(3) के सामयाने के वीराव्यलिये के प्रतिकृतिकारा सं प्रतिक्रींना तथा प्रतिष्ठ कि प्रतन क्षतीकार प्रतन्ता या देने प्रतिक्र कि की के लिये के सामयाने के साम तिल्वा के प्रति क्षती के किस्मी के साम किस्मी क्षता प्रतर की प्रतिष्ठ के देन यह का का कहिस्म के कामपास्त्री जा गांदरों की पुरिस ताल्वारा या देने प्रायत्व कि प्रति क्षार के किस्म क्षाय का प्रतर की प्रतिष्ठ के देन यह का का उनके जी प्रतार की किस्म क्षमत क्रांतिय के दिस्म का अक्सारी साथ की किस्म क्षमत क्षमत क्षार प्रतिक्ष (क्षमत्राव्य का उनके की प्रदार की प्रतीक क्षमत क्षार का प्रति प्रतिक्ष (क्षमत्राव्य क) के उठके 55,55,57,64 – दि तीतंत त्राज्य प्रायति की प्रती के देन क्ष्र) के साथ अनुसीस हर पर काने के प्रवार का प्रती के मार्गत 12,25,5000 – (द, यहाद साथ यां दश्वर साथ) त्या भोता योत राशि प्रायत्व न के साथ के प्रति क्षार प्रायत्व का प्रती के स्वार का साथ की की मार्गत। 22,55,000 – (द, यहाद साथ यां दश्वर साथ) त्या भोता योत राशि प्रायत्व न

2022 को 'सेना है कहा हैं'' 'मने से जाते है'' अक्यर साथकों को उस्प्रे : 2022 को 'सेना है कहा है'' 'मने से जाते है'' अक्यर साथकों को उस्प्र क र से साथ सेए क्यर पांच से साथ 1920 का 'सा' के प्राय के प्रे साथ के र साथ से क्यर पांच से साथ 1925 का 'स' कि र साथ के र साथ से क्यर पांच से साथ 1925 का 'स' कि र साथ के र साथ से क्यर पांच से साथ 1925 का 'स' कि र साथ के र साथ से साथ से साथ 1925 का 'स' कि र साथ के र साथ से साथ से साथ 1925 का 'स' कि र साथ के र साथ से साथ से साथ साथ 1927 र 2020 के 'स' से 'स' से र से सी र क्ये के र साथ से साथ से साथ से साथ 1927 र 2020 के 'स' से 'स' से र साथ से साथ से साथ से र साथ से साथ से र साथ से साथ से साथ से र साथ से र साथ से साथ से र साथ से र साथ से र साथ से साथ से र साथ साथ से र साथ से साथ से र साथ से र साथ से र साथ से साथ से र साथ से र साथ साथ साथ से र साथ से र

तिथिः 28.5.2024, रथानः दिल्ली/एनसीआर . हस्ता./-

भारत होटल लिमिटेड राक्ष्यूल एमअभगता-१४११८-०११२४ पर ज्यांत्रस्य प्रायंव तेन, नई दिल्ती -110 001 क्षेत्र: अन्तन-४४४ १७७७/१४४ १८४४

यों देशे शायन करतु का जातन के दिल्ला से साथ के स यागि के किन देवनोलों जीव लिमिदेव (यूनिट पासत के सिन्दिवर, बी. प्लॉट 31–32. यागीवोवली, फाइनेंसियल विस्ट्रिवर, इंदरपासा—Goods.देलेंगाना (भारत), दूरपास: 640–6716 ft einward.ris@kfintech.com@bhlshare@thelalit.com पर चेंच कृते भाष

कंपनी सचिव

🔞 गोई बनोंवा जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड

स्थानः नई विल्ली दिनांकः 27.05.2024

(CIN: L31102DL1957PLC193993) पंजीकृत कार्यालयः ए–18, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरि नई दिल्ली-110020, फोन नः 011-4161 0860 वेबसाईटः https://www.gevernova.com/regions/in/ge-td-ind

शेयरधारकों को नोटिस

(निवेशक शिक्षा और संरक्षण निथि में कम्पनी के इक्वीटी शेयरों [[गरातरा सारा, सार, पराय, गांध में भागता के प्रात्मा है। के दी-एपरा हो] सारा के सिंहरें (कामनी) के साराताल के एरस्सा चीन कार कोनियन, 2015 की पा 124 [6] की मिरेक कि सार के सारा निव प्रात्मिकन साराता को दर पाती [कि 2016 के सुमान के सारा निव के सारा निव प्रात्मिकन इसके सार निवन्दा कहा जाता है] (ने सारो के सारा निजल से सार्व निव इसके सिर्वन्छ किसा और संसाप की (कार्य्य्वविष्ठ) का उत्तरते की का सारा ने राज इस निवन्छ किसा और संसाप की (कार्य्य्वविष्ठ) के स्टान्डीरि किए कने के लिए

न्दरत / दायारहित लानांसों को कम्पनी अहिनियम्, 1986 तथा/अयवा कम्पनी अ यात हरे अधिनियम कहा जावेगा) के प्रयोग्य प्रायपाने के अनुसार समय-साथ आग निवि (आईईपीएफ) में अत्यारित किया गया है। 31 मार्व, 2017 को समापत चित्त भांश के सत्यन्धे में ऐसे अत्यार्ची की अगली नियत निथि 30 अगरत, 2024 होगी।

से शेयरपाल्टजे के पूर्ण विदरण जिनमें उनके नान, फोरियो नंबर या डोपी आईडी ध्यानंतरण के कारण शेयर(अं) की संख्या भी वेबसाइट https://www.gevernova.co ndia-limited/unclaimed-dividend पर उपलब्ध है |

विरुधारकों से अनुरोध है कि वे आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने वाले

গ কেনান কথা দা লগা কথা কথা দাবলৈ আইক্ষাৰ্থ কৰি নিশনিবিধা আমজক বলোইনা আঁখনিয়েৰে হৈ ষ্ঠাহৰ দাবলৈ আইক্ষাৰ্থ কৰি নিশিষ্ঠৰ, যুশিহ-এনীই হৈছেক হৈ বিধায় নিশিষ্ঠৰ, য জনসায় জন হয়ে কথা কৰি নিশ্বনাৰ ব্যক্তিৰ হৈ এই কোনা বা নিশ্বনাৰ বিধায় কৰি নিশ্বনাৰ বা দলামাৰ কা নাম কথা কৈ নিখ আঁখ হুকে ধাব মাকি ইকাৰ্য কা আহুইজিকে দ ইংঘানাৱেই

फॉर्म ISR 1 और ISR 2 (शेयस्थारक के नाम वाले मूल न्द्र किए गए वेक के साथ

ll. प्रयत्र ISR - 3, SH-13 या SH-14 (जैसा लागू हो)

a. प्रभुवन 2. बर्ग्य, 2. व्य. की करेपालन के प्रभुवन प्रभुवन परंग / हैने तो, सबसे में प्रार्थी प्रार्थी में दें, किसने करेग निषमा के तला आईपीएन का हताता राजारों के उस्पर अंगुकी कि उपर तो प्रभुव त्याप्रकार का कार्यवा में ग करीं देने के प्रभावन के की प्रमुवन करेगा प्रार्थी के की कसने की प्रार्थी का गिलने के प्रभुवन अईपीएन अजीपाल का किसने के प्रभुवन करनी करने के प्रथा करें प्रधान करने पाते अन्युर के प्राराज कर किसने के प्रभुवन करने के कि कार्यन के प्रार्थ के प्रभुवन आईपीएन अजीपाल कर किसने के प्रभुव करनीता करने के प्रार्थ करीं के प्रभुवन आईपीएन के प्रार्थी के प्रभाव के प्रार्थ कर किस्पर के प्रभुवन प्रार्थ के प्रभुवन आईपीएन के प्रिष्ठ कर के प्रभाव के प्रार्थ कर क्यू के प्रभावन कर की ति कार्यक्र कर के प्रभावन करने करने के प्रार्थ कर क्यू के प्रभावन कर की ति कार्यक्रम कर करने के ता

यरुधारक पुनः ध्यान दें कि कन्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपसोड विवरण कम्पनी इईपीएफ प्राधिकरण में अन्तरित करने हेतु नए शेयर प्रनागपत्र के निर्ममन के परिप्रेस्य

परधारक नियमों में निर्वारित प्रक्रिया के अनरूप ऐसे अन्तरित शेयरों तथा दावारहित त

र्तेत कारपोरेट लाभों का दावा, यदि कोई हो, पुनः आईईपीएफ प्राधिकरण से कर सक तरहित लाभांश तथा आईईपीएफ में अन्तरित शेयरों के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के विरुद्ध व

वरि रोयफाल्लर्जे को इस विषय--वस्तु और नियमों के वारे में कोई सवाल है तो वे काप्सनी ट्रांसफर एजेंद, सी वी मैंनेजमेंट साईसेंस खड़बंट सिनिटेड, पो-22, योन्सेल रोड (फोन (033) 2280-6892, 4011-6700/42/24, फॅसर (033) 4011-6738; ई-नेत पर सायर्थ कर सब्जो है। जीई नीपॉन्टरी टॅनिपॉन्टरी टॅनिपॉन्टरी टॅनिपॉन्टरी

जीई टीएंडडी इंडिया दि

स्थानः नोएडा दिनांकः मई 29, 2024

Б, Ц	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का नाम	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की विधि	कुल बकाया राशि (रु.) भाषी प्रयोज्य क्याज
1.	ऋग खाता सं. 15600121045 1. कृष्ण सिंह, 2. ललिता उर्फ ललिता बसला, 3. मंगू सिंह	01-मई- 2024	27- मई -2024	रु. 4,91,543.06/- (रुपये चार लाख इक्यानवे इजार पांच रही तैंतालीस एवं छ: वैसे मात्र) तिथि 13-मई-2024 तक
	प्रतिभूत अगस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) का विवरप प्लॉट नंबर 8 पर निर्मित, कुल क्षेत्रफल 64.25 वर्ग गज रोशनपुर दौरली, परगना दौराला, तहसॉल सरधना, बिला घडिम :- 18 फीट 3 ² इंच/अन्य का प्लॉट उत्तर: 33 फी	यानी 53.72 वर्ग मेरठ, उत्तर प्रदेश	मीटर, खरररा नंगर त 250001 पर स्थित	1275 मीटर, चंद्र गली, एकता नगर, राजस्व गां- 1, सीमाएं: पूर्व: - 18 फीट रास्ता 15 फीट चौर्
ε.	करण खाता सं. 15600084227 1. इनाम रहीस उर्फ इनाम रहिस उर्फ मोहम्मद इनाम, 2. परवीन इनाम	ट1-मई- 2024	22- मई -2024	रु. 7,66,978.84/- (रुपये सात लाख विणसर इजार नी सी अठहत्तर एवं चीरासी पैसे मात्र) तिथि 14-मई-2024 तक
	प्रतिभृत आस्ति(यों)/अचल राम्पति(यों) का विवरण गज, या 41.80 वर्ग मीटर, जिसमें सिंजुमला खसरा नंपर मूर्यः- 45 फोट/प्लॉट नं. एफ-243 पश्चिमः- 45 फोट/ दूर	3126 शामिल है,	समर गार्डन कॉलोर्न), मेरव, उत्तर प्रदेश -250002 पर स्थित, सीमाप
5.	क्रग खाता सं. 15100119327 1. चित्रांशु नागेश कुमार, 2. निशा रानी, 3. रणनीर सिंह	01-मई- 2024	21-मई-2024	रु. 8,58,068.74/- (रुपये आठ लाख अट्ढाध्य हजार अड़सठ एयं चीहचर पैसे मान) हिथि 13-मई-2024 तक
	प्रतिसूत आसित् मो/जयस सम्पन्ति मो) का विवरण : अ भाग, आका 18 फॉट 25 फीट, जाता संख्या co112 एवं ख और तहनीत दादरी, जिला गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 2013 : दररे की रॉवर्न	गर नं. 218एम, 2	१९एम, २२०एम, २२१ए	म, २२२एम, और २२अएम ग्राम सलारपुर जादर, परग-

्रक प्रदेश